



प्रेस नोट

जनपद सीतापुर

04 नफर जिला बदर अभियुक्त गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक सीतापुर श्री आर.पी. सिंह द्वारा जनपद सीतापुर में जिला बदर घोषित अपराधियों की निगरानी एवम् इनके विरुद्ध विधिक कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया है।

उक्त निर्देश के क्रम में अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत अपर पुलिस अधीक्षक उत्तरी व दक्षिणी महोदय, के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारीगण के नेतृत्व में दिनांक 10/11.10.20 को थाना संदना व थाना हरगांव पुलिस द्वारा कुल 04 नफर जिला बदर अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। इस सम्बन्ध में थाना संदना व हरगांव पर मुकदमा पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुए अभियुक्तों को मा0 न्यायालय सीतापुर के समक्ष पेश किया गया। विवरण निम्नवत् है-

थाना संदना

संक्षिप्त विवरण- दिनांक 11.10.2020 को संदना पुलिस ने जिला मजिस्ट्रेट महोदय सीतापुर द्वारा जिला बदर किये गये अभियुक्तगण 1.खुदन्नू पुत्र रामनाथ निवासी ग्रा0 गोदलामऊ थाना सन्दना जनपद सीतापुर 2. गुड्डू पुत्र रामऔतार निवासी ग्रा0 नरबीरपुर सरैया थाना सन्दना जनपद सीतापुर 3.अभियुक्त शैरू पुत्र रामऔतार निवासी ग्रा0 नरबीरपुर सरैया थाना सन्दना जनपद सीतापुर जो दिनांक 18.9.20 से जिला बदर है, को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। इस संबंध में अभियुक्त खुदन्नू, गुड्डू, शैरू उपरोक्त के विरुद्ध क्रमशः मु0अ0सं0 293/20,

294/20, 295/20 धारा 10 यूपी गुंडा निवारण अधिनियम पंजीकृत कर मा0 न्यायालय भेजा जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता-

1. खुदन्नू पुत्र रामनाथ निवासी ग्रा0 गोदलामऊ थाना सन्दना जनपद सीतापुर
2. गुड्डू पुत्र रामऔतार निवासी ग्रा0 नरबीरपुर सरैया थाना सन्दना जनपद सीतापुर
3. शैरू पुत्र रामऔतार निवासी ग्रा0 नरबीरपुर सरैया थाना सन्दना जनपद सीतापुर

पुलिस टीम- व0उ0नि0 श्री अनिल कुमार तिवारी, उ0नि0 श्री ऋषभ यादव, का0 कपिल देव, का0 जाहिद अली, का0 आशीष कुमार, का0 सुनील कुमार ।

थाना हरगांव

संक्षिप्त विवरण- दिनांक 10.10.2020 को थाना हरगांव पुलिस ने जिला मजिस्ट्रेट महोदय सीतापुर द्वारा जिला बदर किये गये अभियुक्त सूरज पुत्र रामनरेश नि0 ग्राम बुढ़ानपुर थाना हरगांव सीतापुर जो दिनांक 16.09.2020 से जिला बदर है, को कबीरपुर नहर पुल से गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। इस संबंध में अभियुक्त सूरज उपरोक्त के विरुद्ध क्रमशः मु0अ0सं0 489/20 धारा 10 यूपी गुंडा निवारण अधिनियम पंजीकृत कर मा0 न्यायालय भेजा जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता- सूरज पुत्र रामनरेश नि0 ग्राम बुढ़ानपुर थाना हरगांव सीतापुर

पुलिस टीम - उ0नि0 श्री नवनीत मिश्रा, हे0का0 दुर्गा सिंह, का0 मनोज कुमार

